



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 श्रावण 1932 (श10)  
(सं0 पटना 604) पटना, बृहस्पतिवार, 19 अगस्त 2010

गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

6 अगस्त 2010

सं0 7/वि0पु0ह0- 202/2010 गृ0आ0-6376—भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार-राज्यपाल, बिहार पुलिस हस्तक खण्ड-1 के नियम 1150, 1151 (ख), 760 (ग), 857 एवं पुलिस हस्तक भाग-3 परिशिष्ट- 42 की कंडिका 4 एवं 5 को तुरंत के प्रभाव से संशोधन करते हैं :-

(1) बिहार पुलिस हस्तक खंड-1 के नियम-1150 में संशोधन करते हुये यह प्रावधान किया जाता है कि किसी एक विभागीय भवन या भवन समूह के लिए रु0 2,50,000 (दो लाख पचास हजार रुपये) लागत तक की परियोजना की स्वीकृति देने हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार को प्राधिकृत किया जाता है। रु0 2,50,000 (दो लाख पचास हजार रुपये) से अधिक लागत की परियोजनाओं की स्वीकृति की शक्ति सरकार में निहित होगी।

(2) पुलिस हस्तक खंड-1 के नियम 1151 (ख) को संशोधित करते हुए आवासीय या गैर-आवासीय भवनों सन्निर्माण एवं पुनः सन्निर्माण या संरचनात्मक हेर-फेर के लिए पुलिस महानिदेशक, बिहार को रु0 2,50,000 (दो लाख पचास हजार रुपये) तक की परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। रु0 2,50,000 (दो लाख पचास हजार रुपये) से अधिक लागत की परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सरकार का होगा।

(3) पुलिस हस्तक खंड-1 के नियम 760 (ग) को संशोधित करते हुए उक्त नियम में 1.00 (एक रुपये) के स्थान पर 30.00 (तीस रुपये) तथा 2.00 (दो रुपये) के स्थान पर 60.00 (साठ रुपये) प्रतिस्थापित किया जाता है।

(4) पुलिस हस्तक खंड-1 के नियम 857 के तहत किसी एक केस में निम्न विवरण के अनुसार अधिकारियों द्वारा अधिकतम नगद पुरस्कार स्वीकृत किया जा सकेगा जितना प्रत्येक के नाम के सामने राशि अंकित है :—

क्र० संख्या	अधिकारी का नाम	नगद पुरस्कार की अधिकतम राशि
1.	पुलिस महानिदेशक	रु० 50,000 (पचास हजार रुपये)
2.	अपर पुलिस महानिदेशक	रु० 30,000 (तीस हजार रुपये)
3.	पुलिस महानिरीक्षक	रु० 20,000 (बीस हजार रुपये)
4.	प्रमंडलीय आयुक्त	रु० 20,000 (बीस हजार रुपये)
5.	पुलिस उप महानिरीक्षक	रु० 10,000 (दस हजार रुपये)
6.	जिला पदाधिकारी	रु० 10,000 (दस हजार रुपये)
7.	पुलिस अधीक्षक	रु० 5,000 (पांच हजार रुपये)

(5) पुलिस हस्तक भाग-3 परिशिष्ट-42 कंडिका-4 के तहत बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली 2006 द्वारा श्रुतलेखन, टंकन हिन्दी एवं अंग्रेजी के लिए जो अर्हता निर्धारित है वही अर्हता आशु सहायक अवर निरीक्षक संवर्ग पर नियुक्ति हेतु लागू होगी।

(6) पुलिस हस्तक भाग-3 परिशिष्ट-42 कंडिका-5 के संबंध में बेसिक कम्प्यूटर एम.एस.ऑफिस ज्ञान की योग्यता भी जांची जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अरुण डेढ़गर्वे,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 604-571+500-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>